

Date: 09.01.2023

LIL:CS:REG30:SE:2022-23

BSE Limited
Listing & Compliance Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400001

The National Stock Exchange of India Limited
Listing & Compliance Department
Exchange Plaza, C-1 Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai-400051

Security Code: 517206

Symbol: LUMAXIND

Sub: Clippings of Newspaper Advertisement for Transfer of Unpaid/Unclaimed Interim Dividend for the Financial Year 2015-16 and the underlying Equity Shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 30 and 47(1)(d) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and pursuant to the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, please find enclosed herewith clippings of the Notice published by the Company in the newspapers viz. the Financial Express (English - All Edition) and Jansatta (Hindi - Delhi Edition) on January 08, 2023, for the attention of Equity Shareholders of the Company regarding proposed transfer of Equity Shares along with the Interim dividend for the financial year 2015-16, in respect of which dividends have not been claimed / paid during the last seven consecutive years, to Investor Education and Protection Fund (IEPF), titled – "TRANSFER OF UNPAID/UNCLAIMED INTERIM DIVIDEND AND THE UNDERLYING EQUITY SHARES TO THE INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF)".

The same shall also be made available on the website of the Company at https://www.lumaxworld.in/lumaxindustries

You are requested to take the above information on records and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,

For LUMAX INDUSTRIES LIMITED

PANKAJ MAHENDRU COMPANY SECRETARY M.NO. A-28161

Encl: As Stated above



FE SUNDAY

OCL IRON AND STEEL LIMITED

CIN:L27102OR2006PLC008594

Regd. Off.: Vill. Lamloi, PO. Garvana Rajgangpur -770017, Phone: +91-11-6624222 ;E-mail:ocliron@gmail.com; Website:www.oclsteel.com

EXTRACT OF THE STATEMENT OF CONSOLIDATED UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2020

(Rupees in Lakhs) Year Ended Quarter Ended Half Year Ended Particulars 30.09.2020 31.03.2020 30.09.2020 30.06.2020 30.09.2019 30.09.2019 (Un-Audited) (Un-Audited) (Un-Audited) (Un-Audited) (Un-Audited) (Audited) Total Income from operations 248.95 40.53 6,118.70 36.384.04 289.48 20,615.31 2 Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional -6,685.34 -8,292.25 -11,740.48-14,977.59 -17,667.92 -45,786.85 and/or extraordinary items) Net Profit/ Loss for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items) -6.685.34 -10,739.28-12,724.27-17,424.62-18,651.71 -83,951.12 Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or -6.685.34-10,739.28-8,002.73-12.239.94-83.951.12 -17,424.62extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)) -6.685.34 10.739.28 -8.002.73-17.424.62 -12.239.94-83.951.12 Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 1/- each) 1,453.10 1,341.43 1,453.10 1,341.43 1,453.10 1,453.10 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the -126,302.35 Audited Balance Sheet of the previous year Earnings per Share (not annualised) a Basic -4.60-7.39-5.97-11.99-9.12-57.77 b Diluted -3.20-5.14-5.97-9.12-8.34-57.77

Notes to financial results:

The corporate insolvency resolution process ("CIRP") of OCL Iron and Steel Limited ('the Company/'Corporate Debtor') was initiated vide order of Hon'ble National Company Law Tribunal. Cuttack Bench ("NCLT") dated September 20, 2021 ("ICD") pursuant to an Application filed by a Financial Creditor under Section 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 ("Code") and Mr. Shiv Nandan Sharma was appointed as the Interim Resolution Professional ("IRP") of the Company, Pursuant to the decision of the Committee of Creditors ("CoC") at the first meeting of the CoC of the Company held on October 20, 2021, it was resolved to replace Mr. Shiv Nandan Sharma with Mr. Vijaykumar V. Iyer as the Resolution Professional of the Company and the CoC filed an application bearing I.A. (IB) No. 120/CB/2021 before the NCLT seeking for replacement of the IRP. The NCLT approved the replacement of the IRP and appointed Mr. Vijay Kumar V. Iyer as the Resolution Professional ("RP") of the Company vide its order dated November 25, 2021 ("Order") which was uploaded on the website of NCLT on December 07, 2021. The Committee of Creditors received various resolution plans and has approved the resolution plan submitted by M/s Indrani Patnaik ("Successful Resolution Applicant") by passing the requisite resolution with 88.98 % majority/voting share in accordance with the provisions of Section 30(4) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ("Code") through e-voting process which was concluded on October 12, 2022. The resolution plan, as approved by the Committee of Creditors, has been filed with the Adjudicating Authority in accordance with the Section 30(6) of the Code for its approval on October 14, 2022, the approval whereof is still awaited.

- Pursuant to the Order dated 20.09.2021, in terms of Section 17 of the Code, the power of the Board of directors stands suspended and are vested in the RP.
- As the powers of the Board of Directors have been suspended, the above results have not been adopted by the Board of Directors. However, the same have been signed by Mr. Sanjeev Agraj (Director), confirming accuracy & completeness of the results and taken on record by Mr. Vijaykumar V. Iyer (Resolution Professional).
- With respect to the financial results for the guarter and half-year ended September 30, 2020 and for the period from July 01, 2020 to September 30, 2020, the RP has taken the same on record solely for the purpose of ensuring compliance by the Corporate Debtor with applicable laws, and subject to the following disclaimers: (i) The RP has assumed control of the Corporate Debtor with effect from December 07, 2021 and therefore was not in control of the operations or the management of the Corporate Debtor to which the underlying report pertains to; (ii) The RP has taken the report on record in good faith and accordingly, no suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the RP in terms of Section 233 of the Code;(iii) No statement, fact, information (whether current or historical) or opinion contained herein should be construed as a representation or warranty, express or implied, of the RP including, his authorized representatives and advisors;(iv) The RP while taking record of the financial results, has relied upon the assistance provided by the directors of the Corporate Debtor, and certifications, representations and statements made by the directors of the Corporate Debtor, in relation to these financial results. The statement of financial results of the Corporate Debtor for the quarter and half-year ended September 30, 2020 and for the period from July 01, 2020 to September 30, 2020 have been taken on record by the RP solely on the basis of and on relying the aforesaid certifications, representations and statements of the aforesaid directors and the erstwhile management of the Corporate Debtor. For all such information and data, the RP has assumed that such information and data are in the conformity with the Companies Act, 2013 and other applicable laws with respect to the preparation of the financial results and that they give true and fair view of the position of the Corporate Debtor as of the dates and period indicated therein. Accordingly, the RP is not making any representations regarding accuracy, veracity or completeness of the data or information in the financial results.
- Trade receivables, loans & advances and other recoverable at September 30th, 2020, which also includes balances from group entities pertaining to prior years, are subject to confirmation/reconciliation and currently recoverability is not ascertainable.
- In India, the Central Government declared the first national lockdown with effect from 25 March 2020 due to Covid-19 pendamic. The steel plant, which was shut down as a result of the lockdown; could not recommence its operations even after the lockdown was lifted and continues to remain shut mainly as a result of labour unrest.
- The consolidated financials of the company include restated standalone financials and financials pertaining to its two subsidiary companies. One subsidiary and one associate company has been deconsoled for being struk off under section 248(1) of companies act 2013. It may be noted that the RP of the Company has no control/ access over/ to the entities, which have been consolidated. The accounts of the two subsidiary companies which are consolidated are unaudited and have been considered on the basis of certification by the management of the entities being consolidated.
- Exceptional items also include Trade Payables and Receivables written back/off to an extent of Rs. 2,447.04 lakh. These comprise old balances which in the opinion of the management are either not payable or
- As a result of the Steel Plant remaining shut since March 2020 the management is unable to take physical verification of stocks-in-hand. The inventory has been taken on the basis of last available verified balances. 10 Previous period figures have been regrouped/ reclassified, wherever considered necessary to conform to the current period presentation.

For OCL Iron and Steel Limited (Company under Corporate Insolvency Resolution Process)

Mr. Sanjeev Agraj

Date: January 6, 2023 Place: New Delhi

Director DIN: 08882503

(Rupees in Lakhs)

Year Ended

OCL IRON AND STEEL LIMITED CIN:L27102OR2006PLC008594

Regd. Off.: Vill. Lamloi, PO. Garvana Rajgangpur -770017, Phone: +91-11-6624222 ;E-mail:ocliron@gmail.com; Website:www.oclsteel.com EXTRACT OF THE STATEMENT OF CONSOLIDATED UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED 31ST DECEMBER, 2020 Quarter Ended Nine Months Ended

83		// // // // // // // // // // // // //						
S. No.	Particulars	31.12.2020 (Un-Audited)	30.09.2020 (Un-Audited)	31.12.2019 (Un-Audited)	31.12.2020 (Un-Audited)	31.12.2019 (Un-Audited)	31.03.2020 (Audited)	
	Total Income from operations	585.60	248.95	10,827.32	875.08	31,442.63	36,384.04	
3	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	-7,148.21	-6,685.34	-8,336.24	-22,125.80	-26,004.16	-45,786.85	
166	Net Profit/ Loss for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	-7,148.21	-6,685.34	-8,336.24	-24,572.84	-26,987.95	-83,951.12	
8	Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	-7,148.21	-6,685.34	-6,042.09	-24,572.84	-18,282.03	-83,951.12	
	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	-7,148.21	-6,685.34	-6,042.09	-24,572.84	-18,282.03	-83,951.12	
9.,	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 1/- each)	1,453.10	1,453.10	1,341.43	1,453.10	1,341.43	1,453.10	
8.1	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-		14	24	-109,982.98	
8	Earnings per Share (not annualised)						72	
	a Basic	-4.92	-4.60	-4.50	-16.91	-13.63	-57.77	
	b Diluted	-3.42	-3.20	-4.50	-11.77	-13.63	-40.20	

Notes to financial results :

The corporate insolvency resolution process ("CIRP") of OCL Iron and Steel Limited ("the Company"/Corporate Debtor") was initiated vide order of Hon'ble National Company Law Tribunal, Cuttack Bench ("NCLT") dated September 20, 2021 ("ICD") pursuant to an Application filed by a Financial Creditor under Section 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 ("Code") and Mr. Shiv Nandan Sharma was appointed as the Interim Resolution Professional ("IRP") of the Company. Pursuant to the decision of the Committee of Creditors ("CoC") at the first meeting of the CoC of the Company held on October 20, 2021, it was resolved to replace Mr. Shive Nandan Sharma with Mr. Vijaykumar V. Iyer as the Resolution Professional of the Company and the CoC filed an application bearing I.A. (IB) No. 120/CB/2021 before the NCLT seeking for replacement of the IRP. The NCLT approved the replacement of the IRP and appointed Mr. Vijay Kumar V. Iyer as the Resolution Professional ("RP") of the Company vide its order dated November 25, 2021 ("Order") which was uploaded on the website of NCLT on December 07, 2021. The Committee of Creditors received various resolution plans and has approved the resolution plan submitted by M/s Indrani Patnaik ('Successful Resolution Applicant') by passing the requisite resolution with 88.98 % majority/voting share in accordance with the provisions of Section 30(4) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ('Code') through e-voting process which was concluded on October 12, 2022. The resolution plan, as approved by the Committee of Creditors, has been filed with the Adjudicating Authority in accordance with the Section 30(6) of the Code for its approval on October 14, 2022, the approval

- Pursuant to the Order dated 20.09.2021, in terms of Section 17 of the Code, the power of the Board of directors stands suspended and are vested in the RP. As the powers of the Board of Directors have been suspended, the above results have not been adopted by the Board of Directors. However, the same have been signed by Mr. Sanjeev Agrai (Director), confirming
- accuracy & completeness of the results and taken on record by Mr. Vijaykumar V. Iyer (Resolution Professional)
- With respect to the financial results for the guarter and nine months ended December 31, 2020 and for the period from October 01, 2020 to December 31, 2020, the RP has taken the same on record solely for the purpose of ensuring compliance by the Corporate Debtor with applicable laws, and subject to the following disclaimers: (i) The RP has assumed control of the Corporate Debtor with effect from December 07, 2021 and therefore was not in control of the operations or the management of the Corporate Debtor to which the underlying report pertains to; (ii) The RP has taken the report on record in good faith and accordingly, no suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the RP in terms of Section 233 of the Code; (iii) No statement, fact, information (whether current or historical) or opinion contained herein should be construed as a representation or warranty, express or implied, of the RP including, his authorized representatives and advisors;(iv) The RP while taking record of the financial results, has relied upon the assistance provided by the directors of the Corporate Debtor, and certifications, representations and statements made by the directors of the Corporate Debtor, in relation to these financial results. The statement of financial results of the Corporate Debtor for the quarter and nine months ended December 31, 2020 and for the period from October 01, 2020 to December 31, 2020 have been taken on record by the RP solely on the basis of and on relying the aforesaid certifications, representations and statements of the aforesaid directors and the erstwhile management of the Corporate Debtor. For all such information and data, the RP has assumed that such information and data are in the conformity with the Companies Act, 2013 and other applicable laws with respect to the preparation of the financial results and that they give true and fair view of the position of the Corporate Debtor as of the dates and period indicated therein. Accordingly, the RP is not making any representations regarding accuracy, veracity or completeness of the data or information in the financial results.
- Trade receivables, loans & advances and other recoverable at December 31st, 2020, which also includes balances from group entities pertaining to prior years, are subject to confirmation/reconciliation and currently recoverability is not ascertainable.
- In India, the Central Government declared the first national lockdown with effect from 25 March 2020 due to Covid-19 pendamic. The steel plant, which was shut down as a result of the lockdown, could not recommence its operations even after the lockdown was lifted and continues to remain shut mainly as a result of labour unrest.
- The consolidated financials of the company include restated standalone financials and financials pertaining to its two subsidiary companies. One subsidiary and one associate company has been deconsoled for being struk off under section 248(1) of companies act 2013. It may be noted that the RP of the Company has no control/ access over/ to the entities, which have been consolidated. The accounts of the two subsidiary companies which are consolidated are unaudited and have been considered on the basis of certification by the management of the entities being consolidated.
- Exceptional items also include Trade Payables and Receivables written back/off to an extent of Rs. 2,447.04 lakh. These comprise old balances which in the opinion of the management are either not payable or recoverable.
- As a result of the Steel Plant remaining shut since March 2020 the management is unable to take physical verification of stocks-in-hand. The inventory has been taken on the basis of last available verified balances. 10 Previous period figures have been regrouped/reclassified, wherever considered necessary to conform to the current period presentation. For OCL Iron and Steel Limited

(Company under Corporate Insolvency Resolution Process)

Date: January 6, 2023 Place: New Delhi

Mr. Sanjeev Agraj Director DIN: 08882503

E-Land Apparel Limited CIN: L17110KA1997PLC120558

APPAREL Regd. Office: 16/28, Sri Vinayaka Indi Estate, Singasandra Near Dakshin Honda Showroom Hoser Road, Bangalore 560068, Kamataka, India. | Ph:080-42548800 E-mail: investor@elandapparel.com | Website: www.elandapparel.com

POSTAL BALLOT NOTICE TO ALL THE MEMBERS OF E-LAND APPAREL LIMITED

Members are hereby informed that the Company has completed dispatch of postal ballot notice on January 07, 2023 for seeking approval of members for the agenda items mentioned below, in compliance with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, and General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 read with General Circular No. 10/2022 and 11/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs, only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories and whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Friday, December 30, 2022 ("Cut-off date").

Agenda Item(s):

- Appointment of Mr. Dong Ju Kim as Director of Company; and
- 2. Appointment of Dong Ju Kim as Chairman and Managing Director of Company; and 3. Approval of Material Related Party Transactions.

The Company has engaged the services of NSDL to provide remote e-voting facility to its members. The remote e-voting period commences from 9.00 a.m. (IST) on January 08, 2023 and ends at 5.00 p.m. (IST) on February 06, 2023. The e-voting module shall be disabled/blocked by NSDL thereafter. Voting rights of the Members shall be in proportion to the shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Friday, December 30, 2022 ("Cut-off date"). Communication of assent or dissent of the Members would take place only through the remote e-voting

Members are further requested to note that once the vote on a resolution is cast by the member, he shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again. Further, any voting by electronic means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. (IST) on February 06, 2023

Notice shall be available on the Company's website i.e. www.elandapparel.com, website of Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Omkar Dindorkar (Certificate of Practice No. 24580), failing him, Ms. Deepti Kulkarni (Certificate of Practice No. 22502), Partners of M/s. MMJB & Associates, Practicing Company Secretaries, for conducting Postal Ballot e-voting process in a fair and transparent

In case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members at the Downloads Section of www.evoting.nsdl.com, or email at evoting@nsdl.co.in, Tel: 1800-222-990 for any grievances connected with the voting by electronics means.

By Order of the Board of Director

Date: January 08, 2023 Place: Bengaluru

Anup Vishwakarma Company Secretary.

LUMAX

LUMAX INDUSTRIES LIMITED CIN: L74899DL1981PLC012804

DK JAIN Registered Office: 2" Floor, Harbans Bhawan-II, Commercial Complex

Nangal Raya, New Delhi -110046. Corporate Office: Plot No. 878, Udyog Vihar, Phase V, Gurugram- 122016, Harvana Phone: 0124-4760000, Email: lumaxshare@lu Website: www.lumaxindustries.com

(FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY)

TRANSFER OF UNPAID/UNCLAIMED INTERIM DIVIDEND AND THE UNDERLYING EQUITY

SHARES TO THE INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF) Dear Shareholders.

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ('the IEPF Rules'), as amended from time to time, every Company is required to transfer to the Investor Education and Protection Fund (IEPF), the money in the Unpaid Dividend Account of the Company which remains unpaid or unclaimed for a period of 7 (seven) consecutive years or more from the date it was transferred to such account and the Company is required to inform the Shareholders whose shares are liable to be transferred to the IEPF three months prior to the due date of transfer of shares and simultaneously publish the notice in the newspapers.

Further, pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013, read with IEPF Rules, all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more shall also be transferred to IEPF i.e. in case any dividend is claimed for any year during the said period of seven consecutive years, the shares shall not be transferred to IEPF.

In view of above, we wish to inform you that the due date for transfer into IEPF of the Unpaid/Unclaimed Interim Dividend lying in the Unpaid Dividend Account of the Company for the Financial Year 2015-16 is 11" April, 2023. Accordingly, concerned Shareholders are requested to kindly claim the Unpaid Dividend.

The Company has sent the individual notices through Speed Post/Registered Post, at the latest available address of the concerned Shareholders to the concerned Shareholders whose dividend is lying unpaid/unclaimed for the financial year 2015-16 and also to the shareholders whose shares are liable to be transferred to the IEPF, requesting them to take appropriate action on or before 11th April, 2023.

Shareholders whose dividend(s) are lying unpaid/unclaimed against their Folio/DP-ID Client ID, in the Unpaid Interim Dividend Account of the Company for the Financial Year 2015-16 and whose shares are due for transfer to the IEPF is being uploaded on the website of the Company at www.lumaxworld.in/lumaxindustries under the Investors Section. In case the Company does not receive any communication from the

The Shareholders may further note that the complete list of

concerned shareholders on or before 11th April, 2023, the Company with a view to adhere with the requirements of the IEPF Rules. transfer the dividend and their corresponding shares to the IEPF, without any further notice, by following the due procedure as stipulated in the IEPF Rules.

The concerned Shareholders whose shares are liable to be transferred to the IEPF, may note that the Company shall inform the Depository by way of corporate action for transfer of shares in favour

Please note that once the dividend and their corresponding shares are credited to the IEPF, no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF pursuant to the said IEPF Rules. It may also please be noted that all subsequent corporate benefits such as Bonus Shares, Dividend etc. that may accrue in relation to the above shares will also be credited to the said IEPF Demat Account. Shareholders may claim the dividend and corresponding shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, from the IEPF authorities after following the procedure prescribed in the Rules.

In case of any queries on the above matter, Shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Transfer Agent, Mr. Rajeev Kumar, Deputy Manager at Kfin Technologies Limited (Formerly known as Kfin Technologies Private Limited), Unit: Lumax Industries Limited, Selenium Tower B, Plot Nos. 31 & 32, Financial District Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad-500032, India Toll Free No. 18003094001 Email ID: rajeev.kr@kfintech.com.


Place: Gurugram

Date: 07/01/2023

For LUMAXINDUSTRIES LIMITED

New Delhi

PANKAJ MAHENDRU **COMPANY SECRETARY** (M.No. A28161)





financialexpress.com



भारतीय स्टेट बैंक आर.ए.सी.पी.सी.-11, बादशाहपुर रामा कॉम्प्लैक्स, सोहना रोड, बादशाहपुर, गुरूग्राम-122016. ई-मेल: sbi.63774@sbi.co.in

कब्जा सूचना ({नियम ८(१) के तहत अचल सम्पत्ति के लिए)} एतदद्वारा सुचना दी जाती है कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ने खाते के समक्ष वर्णित तिथि को तथा इसमें आगे वर्णित राशि हेतु मांग सूचनाएं जारी की थीं, जिनमें उनसे मांग राशि का भूगतान उक्त सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार राशि चुकाने में विफल रहे हैं, एतदहारा कर्जदारों, गारंटरों तथा जनसाधारण को सचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा नीचे खाते और राशि के सामने वर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है। एतदद्वारा, कर्जदार और गारंटर को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सम्पत्ति के सम्बन्ध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा

जिस सम्पत्ति का कब्जा लिया गया है. उनका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :-कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभृत आस्तियों को छड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के सम्बन्ध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान

सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी संव्यवहार **भारतीय स्टेट बैंक** की वकाया राशि और उस पर व्याज का भगतान करने के बाद ही किया जा सकता है

का आर आकृष्ट किया जाता है।	अचल सम्पत्ति	का विवरण		
कर्जदार/गारंटर का नाम	बंधक सम्पत्ति का वर्णन	बकाया राजि (शारा 13(2) के तहत सूचना के अनुसार)	15(2) के तहत सूचना की तिथि	कम्मा की तिथि
कर्जदारः श्री धरम पाल पुत्र श्री लल्लू राम मकान नं. 415, वार्ड नं.3, फरूखनगर, गुरूग्राम-122506	सम्पत्ति के वह सभी भाग एवं हिस्से जो यहां स्थित है: प्लॉट नं. 415, वार्ड नं.03, फलख़नगर, गुरूग्राम-122506.	स.10,05,331.96 (दस लाख पाँच हजार तीन सौ इकत्तीस रूपये एवं छियानवे पैसे मात्र) 01.04.2021 से प्रभावी भविष्य के व्याज एवं अन्य शुल्कों के साथ, कम वसुली (यदि कोई हो)		03/01/2023

दिनांकः 03.01.2023 स्थानः गुरुग्राम

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमशियल बैंक)

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A. ध्लेश्वर गार्डन, अजमेर रोड्, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम २००२ की धारा १३ (२) के अन्तर्गत माग सूचना पत्र अधोहरताक्षरकर्ता एयु स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी है।''वितीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियः 2002 की''धारा 13(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने ऋण खातों के गैर निष्पादनीय आस्तियों (एन.पी.ए.) होने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार

ऋणीवाँ / सह-ऋणीवाँ / गारण्टर बंधककर्ताओं (जिन्हें आगे ऋणी /ऋणीयाँ के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) को 60 दिनों के नोटिस प्रेपित किये थे, नोटिस के अनुसार यदि ऋणी 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाते हैं तो प्राधिकृत अधिकारी प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 व 14 के अन्तर्गर कदम उठाने हेतु स्वतंत्र होगा । जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसे प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लेने की शक्ति तथा उनका विक्रय करना सम्मिलित है । अतः आप ऋणीयों को यह सुचित किया जाता है कि निम्न सुची में दी गई सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि भविष्य के ब्याज तथा खर्चों एवं लागतों इत्यादि के साथ 60 दिवस के भीतर जमा करवा दें । इसके अतिरिक्त आप ऋणीयों को यह सुचित किया जाता है कि उपरोक्त 13(13) में निर्दिग्ट सुचना की प्राप्ति के पश्चात प्रतिभूत लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुचना में निर्दिष्ट अपनी किन्ही प्रतिभुत आस्तियों को विक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा अथवा किसी माध्यम से अन्तरित नहीं करेंगे। ऋणीयों का ध्वान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(8) संपठित नियम 3 (5) प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अनुसार ऋणी अपनी बंधक सम्पत्ति को उसके द्वारा उपगत सभी खर्बों प्रभारों और व्ययों के सहित प्रतिभूत लेनदार द्वारा विक्रव या अन्तरण के लिये नीलामी सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी समय भुगतान करके मुक्त करवा सकते है । ऋण खाता संख्या / ऋणी/सहऋणी/ बंधक सम्पत्ति धारा 13(2) के अन्तर्गत

बन्धकर्ता/गारन्टर का नाम	नोटिस की दिनांक व राशि	का विवरण		
(खाता सं.) L9001060114185340 अनिल कुमार सिंघल (ऋणी) श्रीमति मंजू सिंघल (सह-ऋणी), ज्ञान चन्द सिंघल (सह-ऋणी)	15 दिसम्बर 2022 ₹ 4573962/- रु. पैतालीस लाख तिहतर हजार नो सौ बासठ मात्र दिनांक 13 दिसम्बर 2022 तक	सम्पत्ति स्थित प्लॉट नं. वी-95, खसरा नं. 522, ग्राम-नवादा, रमा पार्क, उत्तम नगर, न्यू दिल्ली क्षेत्रफल 27.5 वर्ग गज		
(खाता सं.) L9001060115292278 राजेश (ऋणी) राजबीर (सह-ऋणी), श्रीमति सोनवीरी (सह-ऋणी)	15 दिसम्बर 2022 र 1138330/- रु. ग्यारह लाख अडतीस हजार तीन सौ तैतीस मात्र दिनांक 13 दिसम्बर 2022 तक			
(खाता सं.) L9001061122051064 व L9001061124404246 अनिल कुमार सिंघल (ऋणी) श्रीमति मंजू सिंघल (सह-ऋणी), ज्ञान चंद सिंघल (सह-ऋणी)	15 दिसम्बर 2022 रै 529240/- रु. पांच लाख उनतीस हजार दो सौ चालीस मात्र व रै 315800/- रु. तीन लाख पंदह हजार आठ सौ मात्र दिनांक 13 दिसम्बर 2022 तक	सम्पत्ति स्थित व्यवसायिक सम्पति स्थित ग्राउण्ड फ्लोर प्रो. नं. एल-१०२/१ एल-ब्लॉक वार्ड नं. ७४, लक्ष्मी नगर, दिल्ली क्षेत्रफल २०.४३ वर्ग गज		
(खाता सं.) L9001060118455658 विजय शर्मा (ऋणी) श्रीमति गीता शर्मा (सह-ऋणी)	15 दिसम्बर 2022 र 1364835/- रु. तेरह लाख चौसठ हजार आठ सौ पैतीस मात्र दिनांक 13 दिसम्बर 2022 तक	सम्पत्ति स्थित फीहोल्ड'-म्युनिसिपल लिमिट मैट्रो एंड अर्बन तीसरा फ्लोर विना छत अधिकार 3856 नार्थन साइड पोर्शन नोर्थ, दिल्ली क्षेत्रफल 62 वर्ग गज		
(खाता सं.) L9001060116217369 बेबी मिश्रा (ऋणी), आदित्य कुमार मिश्रा (सह-ऋणी), लता मिश्रा (सह-ऋणी)	15 दिसम्बर 2022 र 1322026/- रु. तेरह लाख बाईस हजार छब्बीस मात्र दिनांक 13 दिसम्बर 2022 तक	सम्पत्ति स्थित फीहोल्ड म्युनिसिपल लिमिट में एच. नं. 303, ख नं180, गिज्होर गीतम बुद्ध नगर, दिल्ली क्षेत्रफल 32 वर्ग गज		
(खाता सं.) L9001060723888621 के एम फैशन्स (ऋणी), रिशि प्रकाश शर्मा (सह-ऋणी), श्रीमति रेणु शर्मा (सह-ऋणी)	15 दिसम्बर 2022 ₹ 7082054/- रु. सतर लाख ब्यासी हजार चौवन मात्र दिनांक 13 दिसम्बर 2022 तक	सम्पत्ति स्थित फीहोल्ड म्युनिसिपल लिमिट मैट्रो एंड अरबन ओएलएफ प्रोपर्टी नं. 662 न्यू नं. 1863 वार्ड नं. 4 प्रथम फ्लोर बिना छत्त अधिकार सेन्ट्रल दिल्ली पुरानी दिल्ली क्षेत्रफल 101.77 वर्ग गज		
(खाता सं.) L9001060821247779 याशवी फॅशन (ऋणी), विजय शर्मा (सह-ऋणी), श्रीमती गीता शर्मा (सह-ऋणी)	15 दिसम्बर 2022 ₹ 476556/- रु. चार लाख छिहत्तर हजार पांच सौ छप्पन मात्र दिनांक 13 दिसम्बर 2022 तक	सम्पत्ति स्थित फ्रीहोल्ड - नगरपालिका सीमा मेट्रो व शहरी 3856 तीसरी मंजिल चरखेवालान चावरी बाजार सेंट्रल दिल्ली, दिल्ली क्षेत्रफल 62 वर्ग गज		
(खाता सं.) L9001060121230031 परविंदर नागर (ऋणी), जयबीर (सह-ऋणी), श्रीमती मुनेश (सह-ऋणी)	15 दिसम्बर 2022 र 1559436/- रु. पंदह लाख उनसठ हजार चार सौ छत्तीस मात्र दिनांक 13 दिसम्बर 2022 तक	सम्पत्ति स्थित मकान नं. 113, खेत नं. 133, जगनपुर अफजलपुर, परगना दांकीर, जिला व तह. गीतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 400 वर्ग गज		
(खाता सं.) L9001060115273267 खेम चन्द (ऋणी), श्रीमती रामवती (सह-ऋणी)	15 दिसम्बर 2022 ₹ 661906/- रु. छः लाख इकसठ हजार नो सी छः मात्र दिनांक 13 दिसम्बर 2022 तक	सम्पत्ति स्थित नगरपालिका केएच नं. 67/5 केएच नं. 67/5 गली नं. 2, इन्द्राज कॉलोनी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 50 वर्ग गज		
(खाता सं.) L9001060124779562 रविन्दर (ऋणी), श्रीनिवास खादक सिंह (सह-ऋणी), परवीन कुमार (सह-ऋणी)	15 दिसम्बर 2022 र 1027225/- रु. दस लाख सताइस हजार दो सौ पच्चीस मात्र दिनांक 14 दिसम्बर 2022 तक	सम्पत्ति स्थित फ्रीहोल्ड - नगरपालिका सीमा के बाहर, मकान नं. 283, सकालपुरा सकार फुला, गाजियाबाद छिरोरी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश		
स्थान : दिल्ली दिनांक : 07–0	1-2023 प्राधिकृ	त अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड		

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

ओल्ड तहसील रोड, खुर्जा, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश 203131, इमेल k0370@psb.co.in फोन: 76697-29555

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) (नियम 8(1) जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के तहत **पंजाब एण्ड सिंध बैंक,** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **कर्जदार और गारंटर 1. श्री** श्यामवीर सिंह पुत्र राजवीर सिंह # 421, महेश वाटिका, मुरारी नगर, खुर्जा, जिला– बुलंदशहर (उधारकर्ता), सुश्री देवेंद्री पत्नी राजवीर सिंह # 421, महेश वाटिका, मुरारी नगर, खुर्जा, जिला– बुलंदशहर (सह– उधारकर्ता) और श्री राजवीर सिंह पुत्र होती सिंह, निवासी ग्राम किओली कलां असगरपुर, तहसील— खुर्जा, जिला बुलंदशहर (गाांटर) को मांग नोटिस दिनांक 02-11-2022 को जारी किया था, जिसमें मांग नोटिस में पीएसबी बंधक ऋण बकाया राशि रू. 1,83,106.99 (रु. एक लाख तिरासी हजार एक सौ छः और पैसे निन्यान्वे **मात्र)** उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया

उधारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का **कब्जा दिनांक 05.01.2023** को ले लिया है।

उधारकर्ता और गारंटर को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्ति के साथ लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन पंजाब एण्ड सिंध बैंक, (शाखा खुजी), को देय बकाया राशि रू. 1,83,106.99 (रु. एक लाख तिरासी हजार एक सौ छः और पैसे निन्यान्वे मात्र) दिनांक 31.08.2022 तक ब्याज सहित, और भविष्य का ब्याज एवं प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा। उधारकर्ता और गारंटर का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत

सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता

अचल सम्पत्ति का विवरण अचल बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जिसका क्षेत्रफल 112.35 वर्ग मी.. मकान नं. 421, महेश वाटिका, मुरारी नगर, खुर्जा, परगना और तहसील— खुर्जा,

जिला—बुलंदशहर युपी में स्थित शीर्षक विलेख का विवरणः सब रजिस्ट्रार, खुर्जा बुक नं. 1, जिल्द नं. 4166, पृष्ठ सं. 85 से 106, क्रमांक 11333, दिनांकित 24.12.2008 पते नं. 2 के पक्ष में अर्थात सुश्री देवेंद्री पत्नी राजवीर सिंह # 421, महेश वाटिका, मुरारी नगर, खुर्जा, जिला– बुलंदशहर (सह—उधारकर्ता) जिसका क्षेत्रफल 112.35 वर्ग मी.

देनांक 05.01.2023, स्थान : खुर्जा प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

आस्ति विमोचित कर सकते हैं।

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड कॉर्पोरेट कार्यालय : प्रथम तल, डेयर हाउस, नं. 2, एन.एस.सी. बोस रोड, चेन्नई-600 001. Enter a better life शाखा कार्यालय : 1ला तथा 2सरा तल, प्लॉट नं. ६, मेन पुसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005

नियम **8**(1) के तहत

जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुननिर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवतन अधिनियम, 2002 के तहत मैसर्स चोलामण्डलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे कॉलम (बी) में सचित नाम वाले कर्जदारों से नीचे कॉलम (डी) में सचित बकाया राशि तथा उस पर ब्याज का कथित सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भगतान करने को कहते हुए कॉलम (सी) में निर्दिष्ट तिथियों पर मांग सूचनाएं जारी की थीं। कर्जदारों द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने के कारण, एतद्वारा विशेष रूप से कर्जदारों को तथा जनसामान्य को सचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने नियमों

के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) तथा उसके तहत निर्मित नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में यहां नीचे कॉलम (ई) में वर्णित कम्पनी के पार बंधक सम्पत्तियों पर कॉलम (एफ) में वर्णित सम्बन्धित तिथियों पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदारों को तथा जनसामान्य को एतद्वारा नीचे कॉलम (ई) में वर्णित सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और ऐसा कोइ संव्यवहार कॉलम (डी) में वर्णित राशि एवं ब्याज सहित अन्य प्रभारों के लिए मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड के प्रभार के अध्यधीन होगा प्रतिभृतिकरण अधिनियम की धारा 13(8) के तहत कर्जदार बिक्री की अधिसचना से पूर्व समस्त लागतों, प्रभारों एवं व्ययों सहित सम्पूर्ण बकायों का भगतान करके प्रतिभृत

ड्र <u>फ</u> . सं.	कर्जदार का नाम तथा पता और ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जाकृत सम्पत्ति का विवरण	कब्जे की तिथि
[A]	[B] ऋण खाता सं. X0HEEDL00001483234 तथा X0HEEDL00001483281) 1. मोहित कपूर 2. कीर्ति कपूर सभी निवासी : म.नं. 1/9922, गली नं. 3एच वेस्ट गोरखपार्क, शाहदरा, नई दिल्ली-110032	29.11.2021	19.11.2021 तक रु. 10938563.18/-	ाष्टा संपत्ति 1: छत और टेरेस के अधिकार के साथ निर्मित दूसरी मंजिल का समस्त भाग, इसके पूरे ढांचे के साथ साइट पर निर्मित इसकी सभी फिक्स्चर और फिटिंग के साथ संपत्ति संख्या 1/2866 - बी पुराना प्लॉट नं. 39-ए माप क्षेत्र 127.92 वर्ग मीटर यानी 153 वर्ग गज, खसर	04-जन2023 भौतिक

मेंस गली नंबर 13 राम नगर, लोनी रोड, शाहदरा दिल्ली -32 में स्थित। गैलरी कॉमन पैसेज स्टिल्ट कॉमन एंटरेंस में कॉमन पिकिंग. कॉमन लिफ्ट वे

उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059	۱
-----------------------------	---

इंडियन बैंक 🦝 Indian Bank इलाहाखाद **ALLAHABAD**

की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सुचना

शाखाः स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट ब्रांच, दूसरी मंजिल, देशना चैंबर, उस्मानपुरा, अहमदाबाद-380014, एम: 8478937847 ई-मेल: armbahmedabad@indianbank.co.in बिक्री सूचना

परिशिष्ट- IV-A [नियम 8(6) के प्रावधानों के देखें] अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

तिथि : 08/01/2023, स्थान : दिल

प्रतिभृति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुन:निर्माण और प्रतिभृति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों

जनता को सामान्य तौर पर और कर्जदारों और गारंटरों को विशेष तौर पर एतदुद्वारा सूचना दी जाती है कि प्रतिभृतित ऋणदाता को रेहन/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका कब्जा इंडियन बैंक, प्रतिभृतित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, की बिक्री से इंडियन बैंक, स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट (एसएएम) ब्रांच, अहमदाबाद, प्रतिभूतित ऋणदाता को देय 9,76,17,243/- रु. (केवल नौ करोड़ छिहत्तर लाख सतारह हजार दो सौ तैंतालीस रुपये) जो 04.01.2020 कं है (सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) जारी डिमांड नोटिस दिनांक 04.01.2020 के अनुसार) के साथ उस पर आगामी ब्याज और आकिस्मक खर्चें, लागतें, प्रभार आदि की वसूली की वसूली के लिए दिनांक 31.01.2023 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे "जैसी है जहां है" तथा "जैसी है जो कुछ है" और "जो कुछ वहां मौजूद है" के आधार पर की जाएगी

कजदारा∕ गारटरा के नाम	प्रताकात्मक⁄ भाातक कब्ज क प्रकार वाली अचल संपत्तियों का विवरण	ऋणभार	आरक्षत मूल्य	इएमडा राशि	बाला वृद्धिशील राशि	इ- नालामा की तिथि एवं समय	संपत्ति आईडी नं.
	शिवानी कर्न्वेस फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर		7,96,00,000/-	79,60,000/-	50,000/- रु.	31.01.2023 पूर्वा.	IDIB277500265
(उधारकर्ता), पंजीकृत कार्यालयः- नंबर 1114,	ईपीआईपी फेज-1, झारमाजरी, बद्दी, जिला सोलन, हि	माचल प्रदेश में	रु. (सात करोड़	रु. (उनासी	(पचास हजार	11.00 बजे से अप.	
11वीं मंजिल इत्ययाउन विवा शंकर वादी		_	\ \ \ \ \	रु. (उनासा	रुपए)	02.00 बजे तक	
जोगेश्वरी पूर्व, मुंबई- ४०००६०, फैक्ट्री:- प्लॉट नंबर 15. एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्टियल पार्क-	पर लीज़ धारक अधिकारों के सभी अनिवार्य अंग। पूर्वः	प्लॉट नंबर 14;	रुपए)	लाख साठ हर्ज	गर रुपए)		
1, झारमारी, बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश	पश्चिमः प्लॉट नंबर 16ए; उत्तरः जल निकासी; दक्षिणः स	गड़क- (भौतिक [।]	कब्जा)।				

(2) श्री सुरेश सोहनलाल गोयल (शिवानी कर्न्वेस फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और गारंटर), 501, देव प्रयाग अपार्टमेंट, तेरापंथ भवन के पास, सिटीलाइट, सूरत (गुजरात)- 395007 (3) श्री राजेश गोयल (शिवानी कर्न्वेस फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और गारंटर), बंगला नंबर 22529, स्ट्रीट नंबर 15, भाग रोड, बठिंडा, पंजाब- 151001

ऑनलाइन बोली में भाग लेने के लिए बोलीदाताओं को हमारे ई नीलामी सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट (www.mstcecommerce.com) पर जाने की सलाह दी जाती है। तकनीकी सहायता के लिए कृपया एमएसटीसी हेल्पडेस्क नंबर 033-22901004 और सेवा प्रदाता हेल्प डेस्क में उपलब्ध अन्य हेल्प लाइन नंबर पर कॉल करें। एमएसटीसी लि. के साथ पंजीकरण की स्थित के लिए, ibapiop@mstcecommerce.com से संपर्क करें और ईएमडी की स्थित के लिए कपय ibapifin@mstcecommerce.com से संपर्क करें

संपत्ति के विवरण और संपत्ति की तस्वीरें और नीलामी के नियम और शर्तों के लिए कृपया देखेंः https://ibapi.in और इस पोर्टल से संबंधित स्पष्टीकरण के लिए, कृपया हेल्प लाइन नंबर "18001025026" और "011-41106131" पर संपर्क करें।

DK IAIN

बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट https://ibapi.in और www.mstcecommerce.com पर प्रॉपर्टी की खोज के लिए ऊपर दिए गए **प्रॉपर्टी आईडी नंबर** का उपयोग करें। दिनांक: 07.01.2023 प्राधिकृत अधिका

पंजाब मेशनल बैंक

punjab national bank

स का प्रताक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

मण्डल शस्त्रा, गाजियाबाद,

द्वितीय तल, केजे-13, कविनगर, गाजियाबाद - 201001, ई-मेल: cs8228@pnb.co.in

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुननिर्माण एवं प्रतिभृति हित

प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफासी ऐक्ट) की धारा 13(2) के अधीन सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कर्जदारों / गारंटर / रों ने उनके द्वारा बैंक से प्राप्त की गई ऋण सुविधाओं के मूलधन एवं ब्याज के प्रतिभूगतान में चूक की है तथा उनके ऋण अनार्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में सूचीबद्ध किए जा चुके हैं। उनको, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण तथा पुनरनिर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत, उनके अंतिम ज्ञात पतों पर नीटिस जारी किए गए थे, परंतु नोटिस बिना तामील वापस प्राप्त किए जा चुके हैं और अतएव उनको इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचना

豖.	कर्जदार/गारन्टर के नाम	सम्पत्तियों का विवरण / प्रवर्तित की जाने	मांग सूचना की तारीख	
सं.	एनपीए की तारीख	वाली प्रतिभूत आस्तियों का पता	बकाया राशि	
	 मैसर्स अंजलि इंटरप्राइजेज (प्रोपराईटरः श्रीमती अंजलि खन्ना) पताः बी-10. 	कोलेटरल प्रतिभूतियां—	मांग सूचना की तारीख 03-01-2023	
	गुरुनानक पुरा, मोदीनगर — 201206, यू.पी. 2. श्रीमती अंजिल खन्ना पत्नी पत्नी श्री अनुज खन्ना, पताः सी — 921, ब्लॉक—सी, गौर कास्केड्स सोसाइटी, राज नगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद, यू.पी. संपत्ति(याँ) के उधारकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ता को प्रतिलिपिः • श्री रोशन लाल खन्ना पुत्र श्री सौदागर मल खन्ना, पताः थी—10, गुरुनानक पुरा, मोदीनगर —201204, गाजियाबाद, यू.पी. • श्री अनुज खन्ना पुत्र श्री रोशन लाल खन्ना, पताः सी — 921, ब्लॉक—सी, गौर कास्केड्स सोसाइटी, राज नगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद, यू.पी. • श्रीमती मुक्ता मित्तल पत्नी श्री अनिल कुमार मित्तल, पताः प्लॉट नं. 20, ऋषभ विहार, मोदीनगर—201204, गाजियाबाद, यू. पी. — ऋष खाते को एनपीए घोषित करने की तिथि 28-08-2019	गोविन्दपुरी, मोदीनगर—201206, जिला गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, (क्षेत्रफल 125.00 वर्ग गज / 104.51 वर्ग मी.) यह सम्पत्ति श्रीमती अंजलि खन्ना पत्नी श्री अनुज खन्ना के नाम पर है। 2. फ्री होल्ड रिहायशी प्रथम तल, मकान नं. टी—8 का भाग, बिना छत के अधिकार के, (दो कमरे, एक डाईनिंग रूम, एक रसोई, एक शौद्यालय, रनानागार और सीढ़ियाँ, प्रथम श्रेणी के प्रथम तल पर निर्मित जिसमें सलीम कबर्ड) मोहल्ला गोविन्दपुरी, मोदीनगर—201206, जिला गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, (क्षेत्रफल 125.00 वर्ग गज / 104.51 वर्ग मी.) यह सम्पत्ति श्री अनुज खन्ना के नाम पर है। 3. फ्री होल्ड रिहायशी प्लॉट खसरा नं. 544 से संबंधित, गाँव सिकरी कलां, मोहल्ला (ग्रीन पार्क), जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, गाजियाबाद, यू.पी (क्षेत्रफल 200.66 वर्ग गज / 167,78 वर्ग मी.) यह सम्पत्ति श्रीमती अंजलि खन्ना पत्नी श्री अनुज खन्ना के नाम पर है। 4. फ्री होल्ड रिहायशी प्लॉट खसरा नं. 544 से संबंधित, गाँव सिकरी कलां, मोहल्ला (ग्रीन पार्क), जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, गाजियाबाद, यू.पी (क्षेत्रफल 130.66 वर्ग गज / 109.25 वर्ग मी.) यह सम्पत्ति श्रीमती अंजलि खन्ना पत्नी श्री अनुज खन्ना के नाम पर है। 5. फ्री होल्ड रिहायशी प्लॉट खसरा नं. 544 से संबंधित, गाँव सिकरी कलां, मोहल्ला (ग्रीन पार्क), जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, गाजियाबाद, यू.पी (क्षेत्रफल 130.66 वर्ग गज / 109.25 वर्ग मी.) यह सम्पत्ति श्रीमती	₹ 11,36,82,726.94 दिनांक 31-12-2022 तक + स्याज एवं कानूनी प्रभार इत्यादि	
2	 मैसर्स खन्ना इंटरप्राइजेज (प्रोपराईटर: श्री मोहित खन्ना) पता: बी-10, गुरुनानक पुरा, मोदीनगर – 201206, यूपी. श्री मोहित खन्ना पुत्र श्री रोशन लाल खन्ना, पता: बी-10, गुरुनानक पुरा, मोदीनगर – 201206, यूपी. संपत्ति(यों) के उधारकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ता को प्रतिलिपिः 	है। प्राथमिक प्रतिभृति — स्टॉक, बुक डेब्टस और अन्य वर्तमान संप्रतियां और	मांग सूचना की तारीख 03-01-2023 बकाया राशि ₹ 1,44,71,575.53 दिनांक 31-12-2022 तक + ब्याज एवं	
	• श्री अनुज खन्ना पुत्र श्री रोशन लाल खन्ना, पताः सी-921, ब्लॉक-सी, गौर कास्केड्स		CK.	

ल्युमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सीआईएन : L31909DL1981PLC349793

पंजी. कार्यालयः द्वितीय तल, हरबंस भवन-II, कमर्शियल कॉम्पलेक्स, नांगल राया, नई दिल्ली-110046, **कॉर्पोरेट कार्यालयः** प्लॉट नंबर ८७८, उद्योग विहार, फेज v, गुरुग्राम— 122016, हरियाणा दूरभाष : 0124-4760000, ईमेल : shares@lumaxmail.com, वेबसाइटः www.lumaxworld.in/lumaxautotech

(कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ)

भगतान / दावा नहीं किए गए अंतरिम लाभांश और अंतर्निहित इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरण

प्रिय शेयर धारकों,

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धन वापसी) नियम, 2016 ('नियम') के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 124, समय-समय पर यथा संशोधित, के प्रावधानों के अनुसरण में, प्रत्येक कंपनी के लिए कंपनी के अदत्त लाभांश खाते में वह राशि स्थानांतरित करना अपेक्षित है जिनका कंपनी के अदत्त खाते में उसके स्थानांतरण की तिथि से निरंतर 7 (सात) वर्षों या अधिक की अवधि के लिए भूगतान नहीं हुआ है अथवा दावा नहीं किया गया है और कंपनी के लिए शेयरों के स्थानांतरण की देय तिथि से तीन माह पूर्व उन शेयरधारकों को सुचित करना और साथ ही साथ समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित करना अपेक्षित है, जिनके शेयर, आईईपीएफ को स्थानांतरित किए जाने हैं।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 124(6) के प्रावधानों के अनुरूप, आईईपीएफ नियमों के साथ पठित, सभी शेयर जिनके संबंध में लगातार पिछले सात या अधिक वर्षों के लिए लाभांश का भूगतान नहीं किया गया है अथवा दावा नहीं किया गया है भी आईईपीएफ को स्थानांतरित कर दिए जाएंगे अर्थात यदि लगातार सात वर्षों की उक्त अवधि के दौरान किसी भी वर्ष के लिए लाभांश का कोई दावा कर लिया जाता है, शेयर्स आईईपीएफ को स्थानांतरित नहीं किए जाएंगे।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम आपको सुचित करना चाहते हैं कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी के अदत्त लाभांश खाते में पड़े अदत्त / अदावाकृत अंतरिम लाभांश को आईईपीएफ खाते में स्थानांतरण के लिए देय तिथि 15 अप्रैल, 2023 है। तदनुसार संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कृपया अदत्त लाभांश का दावा प्रस्तुत करें।

कंपनी ने संबंधित शेयरधारकों को, जिनके लाभांश वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अदत्त / अदावाकृत हैं तथा उन शेयरधारकों को भी जिनके शेयर आईईपीएफ को स्थानांतरित किए जाने वाले हैं, 15 अप्रैल, 2023 को अथवा इससे पहले उचित कार्रवाई करने के लिए अनुरोध के साथ नवीनतम उपलब्ध पते पर रपीड पोस्ट / पंजीकृत डाक से व्यक्तिशः नोटिस भेजे हैं।

शेयरधारक आगे यह नोट कर लें कि शेयरधारकों की पूर्ण सूची, जिनके लाभांश का वित्तीय वर्ष 2015-16 से लेकर कंपनी के अंतरिम लाभांश खाते में उनके फालिया / डोपी—आईडी क्लायंट आईडी के तहत भुगतान / दावा नहीं किया गया है, और जिनके शेयर आईईपीएफ को स्थानांतरित किया जाना देय है, कंपनी की वेबसाइट www.lumaxworld.in/lumaxautotech पर निवेशक खंड के अधीन अपलोड किए जा रहे हैं।

यदि कंपनी को संबंधित शेयरधारकों से 15 अप्रैल, 2023 को अथवा इससे पहले कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, कंपनी आईईपीएफ नियमों में यथा निर्धारित विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए आगे बगैर कोई सूचना दिए आईईपीएफ नियमों की अपेक्षा का पालन करने के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2015-16 से संबंधित अदावाकृत लाभांश राशि और उनके तत्स्थानी शेयरों को आईईपीएफ को स्थानांतरित कर देगी। संबंधित शेयरधारक जिनके शेयर आईईपीएफ में स्थानांतरित किए जाने हैं, नोट कर लें कि कंपनी आईईपीएफ के पक्ष में शेयरों के स्थानांतरण के लिए निगमित कार्रवाई के जरिए डिपाजिटरी को सूचित करेगी।

कृपया नोट कर लें कि एक बार लाभाश और उनके तत्स्थानी शेयर आईईपीएफ में क्रेडिट हो जाने के बाद, अदत्त लाभांश राशि और आईईपीएफ में स्थानांतरित शेयरों के संबंध में उक्त आईईपीएफ नियमों की अपेक्षाओं के अनुसरण में कंपनी के विरूध कोई दावा नहीं रहेगा। कृपया यह भी नोट कर लें कि बाद के सभी कार्पोरेट लाभ जैसे कि बोनस शेयर, लाभांश आदि, जो कि उक्त शेयरों के संबंध में अर्जित हो सकते हैं, भी उक्त आईईपीएफ डीमैट खाते में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। शेयरधारक नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आईईपीएफ में स्थानारित लाभांश और तत्स्थानी शेयर्स, ऐसे शेयरों पर अर्जित सभी लाभों सहित, यदि कोई है, का दावा आईईपीएफ प्राधिकारियों से कर सकते हैं।

उपर्युक्त मामले में किसी भी प्रश्न के संबंध में शेयरधारकों से अनुरोध है कि कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, बिगशेयर सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट: ल्मैक्स ऑटो टेक्नोलॉजिज लिमिटेड, ऑफिस नं. एस 6-2, छठा तल, पिनाकल बिजनेस पार्क-अहरा सेंटर से अगला, महाकाली केव्स रोड, अंघेरी (ईस्ट), मुंबई 400092, महाराष्ट्र, भारत, टेली: 022-62638200, ई-मेल आईडी vinod.y@bigshareonline.com से संपर्क कर सकते हैं।

स्थान : गुरुग्राम

तिथि : 07/01/2023

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

कृते ल्युमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

हस्ता./-

राजेश कुमार गुप्ता कंपनी सचिव (संदरयाता संख्या : A8709)

ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड LUMAX

पंजी. कार्यालय : द्वितीय तल, हरबंश भवन—II, कमर्शियल कॉम्पलेक्स, नांगल राया, नई दिल्ली-110046 **कॉर्पोरेट कार्यालयः** प्लॉट नंबर ८७८, उद्योग विहार, फेज-V, गुरुग्राम 122016, हरियाणा, दूरमाष : 0124-4760000 ईमेल : lumaxshare@lumaxmail.com, वेबसाइट : www.lumaxindustries.com

सीआईएन : L74899DL1981PLC012804

DK JAIN

(कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ)

भुगतान / दावा नहीं किए गए अंतरिम लामांश और अंतर्निहित इक्विटी शेयरों

का निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरण प्रिय शेयर धारकों

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 124, निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा और रिफंड) नियम, 2016 ('आईईपीएफ नियम)', समय—समय पर यथा संशोधित, के साथ पठित, के प्रावधानों के अनुसरण में, प्रत्येक कंपनी के लिए, कंपनी के भूगतान नहीं किए गए लाभांश खाते में जमा धनराशि, जिसका ऐसे खाते में स्थानांतरण की तिथि से लगातार 7 (सात) या अधिक वर्षों की अवधि के लिए भूगतान नहीं किया गया है अथवा दावा नहीं किया गया है, को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित करना अपेक्षित है और कंपनी के लिए शेयरों के स्थानांतरण की देय तिथि से तीन माह पूर्व उन शेयरों के शेयरधारकों को सूचित करना और साथ ही साथ समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करना अपेक्षित है जिनके शेयर आईईपीएफ को स्थानांतरित किए

जाने हैं। इसके अतिरिक्त, आईईपीएफ नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 124(६) के प्रावधानों के अनुसरण में, सभी शेयर जिनके संबंध में लगातार सात या अधिक वर्षों के लिए लाभांश का भूगतान नहीं किया गया है अथवा दावा नहीं किया गया है, भी आईईपीएफ में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे अर्थात यदि सात लगातार वर्षों की उक्त अवधि के दौरान किसी भी वर्ष के लिए किसी भी लाभांश का

दावा किया जाता है, शेयरों को भी आईईपीएफ में स्थानांतरित नहीं किए जाएंगे। उपर्युक्त के मददेनज़र, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए कंपनी के भुगतान नहीं किए गए लाभांश खाते में जमा पड़े, भुगतान नहीं किए गए / दावा नहीं किए गए अंतरिम लाभांश को आईईपीएफ को स्थानांतरित करने के लिए देय तिथि 11 अप्रैल, 2023 है। तदनुसार, संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि कृपया भुगतान नहीं किए लाभांश का दावा प्रस्तुत कर दें। कंपनी ने उन संबंधित शेयरधारकों को जिनके लाभांश वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए भूगतान नहीं किए गए हैं / दावा नहीं किया गया है और उन शेयरधारकों को भी जिनके शेयर आईईपीएफ में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं. को उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर स्पीड पोस्ट / पंजीकृत पोस्ट से व्यक्तिशः सूचनाएं प्रेषित कर दी हैं और उन्हें अनुरोध किया गया है कि वे 11 अप्रैल, 2023 को अथवा इससे पहले

उपयुक्त कार्रवाई कर लें। शेयरधारक आगे नोट कर लें कि वित्तीय वर्ष 2015-16 कंपनी के लिए भूगतान नहीं किए गए अंतरिम लाभांश खाते में उनके फोलियां/डीपी–आईडी क्लायंट आईडी के तहत ऐसे शेयरधारकों की पूर्ण सूची जिनके लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है / दावा नहीं किया गया है, तथा ऐसे शेयरों के विवरण भी जो कि आईईपीएफ में स्थानांतरित किया जाना देय है, कंपनी की वेबसाइट www.lumaxworld.in/lumaxindustries पर निवेशक खंड के तहत अपलोड किए

यदि कंपनी को संबंधित शेयरधारकों से 11 अप्रैल, 2023 को अथवा इससे पहले कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, कंपनी आईईपीएफ नियमों की अपेक्षाओं के मद्देनजर आईईपीएफ नियमों की निधारित प्रकिया का पालन करते हुए आगे बगैर कोई सूचना दिए लाभांश और उनके तत्स्थानी शेयरों को आईईपीएफ में स्थानांतरित कर देगी।

संबंधित शेयरधारक जिनके शेयर आईईपीएफ में स्थानांतरित किए जाने हैं, नोट कर लें कि कंपनी आईईपीएफ के पक्ष में शेयरों के स्थानांतरण के लिए निगमित कार्रवाई के जरिए डिपाजिटरी को सूचित करेगी।

क्पया नोट कर लें कि एक बार लाभांश और उनके तत्स्थानी शेयर आईईपीएफ में जमा कर दिए जाने पर, उक्त आईईपीएफ नियमों के अनुसरण में आईईपीएफ को स्थानांतरित अदावाकृत लाभांश राशि और शेयरों के संबंध में कंपनी के विरूध कोई दावा नहीं रहेगा। कृपया यह भी नोट कर लिया जाए कि बाद में सभी लाभ जैसे कि बोनस शेयर, लाभांश आदि जो कि उक्त शेयरों के संबंध में उपार्जित हो सकते हैं, उन्हें भी उक्त आईईपीएफ डीमैट खाते में जमा कर दिया जाएगा। शेयरधारक ऐसे शेयरों पर उपार्जित सभी लाभांश सहित आईईपीएफ को स्थानांतरित लाभांश और तत्स्थानी शेयरों के दावे, यदि कोई है, आईईपीएफ प्राधिकारियों से नियमों में

निर्धारित प्रकिया का पालन करने के उपरांत प्रस्तुत कर सकते हैं। उपर्युक्त के संबंध में किसी भी प्रश्न के मामले में, शेयरधारकों से अनुरोध है कि कंपनी के रजिस्दार और द्वांसफर एजेंट, श्री राजीव कुमार, उप प्रबंधक, केफिन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड (पूर्ववर्ती केफिन टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड), यूनिट ल्यूमैक्स, इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेलेनियम टावर बी, प्लाट नं. 31 और 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद–500032, इंडिया, टोल फ्री नं. : 18003094001, ई-मेल आईडी: <u>rajeev.kr@kfintech.com</u> से संपर्क करें।

कृते ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड

स्थान : गुरुग्राम दिनांक : 07 / 01 / 2023

पंकज महेन्द्र कंपनी सचिव (सदस्यता संख्याः A28161)

मित्तल, पताः प्लॉट नं. 20, ऋषभ विहार, मोदीनगर–201204, गाजियाबाद, यू.पी.

की तिथि 29-08-2019 सूचना प्रदान करने हेत् वैकल्पिक उपाय किए जा रहे हैं। एतदद्वारा उपरोक्त कर्जदार 🖊 गारंटर(रों) से बकाया राशि का भुगतान इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की

हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, की धारा 13 की उप—धारा (4) के अधीन कदम उठाए जाएंगे । दिनांक : 07.01.2023, स्थान : गाजियाबाद

सोसाइटी, राज नगर एक्सटेशन, गाजियाबाद, | 3. रिहायशी सम्पत्ति डी–180, प्रथम तल (जिसमें दो कमरे, एक शौचालय, एक स्नानागार, एक रसोई, दीर्घा।

• श्री अनिल कुमार मित्तल पुत्र स्वर्गीय श्री **ओम प्रकाश मित्तल, पताः** प्लॉट नं. 20, ऋषम विहार, मोदीनगर-201204, गाजियाबाद, यू.पी. • श्रीमती मुक्ता मित्तल पत्नी श्री अनिल कुमार

एवं सीढ़ियाँ द्वितीय श्रेणी की बनी हुई है तथा सलीम से ढकी हुई है।) मोहल्ला छोटी मार्केंट, गोविन्दपुरी, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद में स्थित, (क्षेत्रफल 65.00 वर्ग गज / 54.35 वर्ग मीटर) यह सम्पत्ति श्रीमती अनिल कुमार मित्तल पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश मित्तल और श्रीमती मुक्ता मित्तल पत्नी श्री अनिल

कुमार मित्तल के नाम पर है।

मांग की जाती है, जिसमें विफल रहने की स्थिति में, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन की अवधि समाप्त होने पर, आगे वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति

ऋण खाते को एनपीए घोषित करने

www.readwhere.com